



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 31, 2008—जून 6, 2008 (ज्येष्ठ 10, 1930)

No. 22]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 31, 2008—JUNE 6, 2008 (JYAISTHA 10, 1930)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## विषय-सूची

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .....	463	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, हट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं .....	521	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश .....	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं .....	5	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, निबंधक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधोनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .....	4525
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, हट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं .....	593	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस .....	227
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम .....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .....	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ .....	*	भाग III—खण्ड-4—विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं .....	3477
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रचुर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट .....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस ....	123
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) .....	*	भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण .....	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं .....	*		

## CONTENTS

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....	463	than the Administration of Union Territories).....	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....	521	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) .....	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	5	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .....	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence.....	593	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India .....	4525
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs.....	227
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations .....	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners.....	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills.....	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies.....	3477
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories).....	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .....	123
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi.....	*

\*Folios not received.

## भाग I—खण्ड 1

## [PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  
(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 मई 2008

संकल्प

सं. एक्स. 11035/2/6-डीएफएसी--भारतीय भेषज संहिता को औषध एवं प्रसाधन समग्री अधिनियम, 1940 की द्वितीय अनुसूची के संदर्भ में उसमें निहित औषधों के मानदण्डों की आधिकारिक पुस्तक है, के समय पर प्रकाशन से संबंधित मामलों को अनन्य रूप से निपटने के लिए एक पृथक, समर्पित, स्वायत्त संस्था के निर्माण का प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन रहा है जिससे कि भारत में आयातित, बिक्री के लिए विनिर्मित, बिक्री के लिए भंडारित या प्रदर्शित या वितरित किए जाने के लिए औषधों की पहचान, परिशुद्धता तथा क्षमता के मानदण्डों को विनिर्दिष्ट किया जा सके। उपर्युक्त उद्देश्य को देखते हुए, भारतीय भेषज संहिता आयोग को अन्य के साथ-साथ भारतीय भेषज संहिता तथा भारतीय राष्ट्रीय फार्मलरी का नियमित आधार पर संशोधन एवं प्रकाशन करने जैसे कार्यों को निष्पादित करने के अधिदेश के साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 की सं. 21) के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था।

2. इस मामले पर उच्चतम स्तर पर विचार किया गया है और भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि केन्द्रीय भारतीय भेषजसंहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद, स्वास्थ्य सेवा महाविशालय का एक अधीनस्थ कार्यालय, जो मुख्यतया भारतीय भेषज संहिता को तैयार करने में केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रक संगठन को सहायता प्रदान करने में लगा हुआ है, को केन्द्रीय भारतीय भेषज संहिता प्रयोगशाला के भवनों तथा अन्य मौजूदा अवसंरचना सहित स्टाफ, परिसंपत्तियों एवं देयताओं के साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नियत की जाने वाली तारीख से भारतीय भेषज संहिता आयोग के साथ समामेलित/विलयित किया जाना चाहिए और भारतीय भेषज संहिता आयोग केन्द्रीय भारतीय भेषज संहिता प्रयोगशाला द्वारा अब तक निष्पादित किए जा रहे सभी कार्यों एवं कृत्यों को अपने हाथ में ले लेगा। सोआईपीएस के मौजूदा अधिकारियों और स्टाफ को उनके ग्रेड का लिहाज किए बिना विदेश सेवा शर्तों पर बिना किसी प्रतिनिधित्वित भत्ते के आईपीसी की क्षमता में सामूहिक रूप से स्थानांतरित किया जाए और उन्हें आईपीसी में स्थायी रूप से सम्मिलित होने अथवा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पुनः प्रशिक्षण एवं पुनः तैनाती प्रभाग में प्रत्यावर्तित करने, इनमें से जो भी स्थिति हो, का विकल्प दिया जाएगा। भारतीय भेषज संहिता आयोग अब से एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करेगा, जो केन्द्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य और परिवार

कल्याण मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण में विशिष्ट बजटीय अकाउंटों द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित होगा। यह भी निर्णय लिया गया है कि इस अंतराल के दौरान, सोआईपीएस आईपीसी की संघटक प्रयोगशाला के रूप में उसके स्टाफ और अवसंरचना के साथ तब तक कार्य करेगी जब तक कि दोनों संस्थानों का आपस में औपचारिक रूप से सम्मेलन/विलय नहीं हो जाता है। इसके पश्चात् सोआईपीएस सभी उद्देश्यों के लिए निर्वाह करना बंद कर देगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को संप्रेषित की जाए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत सभी सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालय।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत सभी स्वायत्त/सांख्यिक संगठन।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री/राज्य मंत्री (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण)/सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण)/महाविशालय स्वास्थ्य सेवाएं/विक्रय सचिव (डीजी)/संयुक्त सचिव (छोटी) के निजी सचिव।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत सभी संयुक्त सचिव और अन्य अधिकारी।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को आम सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

देवाशोध पांडे  
संयुक्त सचिव

संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 मई 2008

संकल्प

संकल्प संख्या 32-1/2006-सी डी एन दिनांक 27 दिसम्बर, 2007 के जरिए राष्ट्रीय संस्कृति नीति तैयार करने पर विचार करने हेतु गठित समिति का कार्यकाल एतद्वारा नवीकृत किया जाता है और इसे आगे 30 जून, 2008 तक की अवधि के लिए बढ़ाया जाता है।

अन्य सभी शर्तें एवं निबंधन पूर्ववत् हैं।

रामकन्द मिश्र  
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE  
(DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE)

New Delhi, the 6th May 2008

RESOLUTION

No. X.11035/2/06-DFQC—The Government of India have had under consideration the question of formation of a separate, dedicated, autonomous institution exclusively to deal with matters relating to timely publication of the Indian Pharmacopoeia which is the official book of standards for drugs included therein, in terms of the Second Schedule to the Drugs and Cosmetics Act, 1940 so as to specify the standards of identity, purity and strength for the drugs imported, manufactured for sale, stocked or exhibited for sale or distributed in India. With the above objective in view, the Indian Pharmacopoeia Commission (IPC) was registered as a society under the Societies Registration Act, 1860 (No. 21 of 1860) under the Ministry of Health & Family Welfare with the mandate to perform, inter-alia, functions such as revision and publication of the Indian Pharmacopoeia and the National Formulary of India on a regular basis.

2. The matter has been considered at the highest level and the Government of India have decided that the Central Indian Pharmacopoeia Laboratory, Ghaziabad (CIPL), a subordinate office of the Directorate General of Health Services which is primarily engaged in assisting the Central Drugs Standards Control Organization in the preparation of Indian Pharmacopoeia should be amalgamated/merged with the IPC with effect from the date to be appointed by the Ministry of Health & Family Welfare together with the staff, assets and liabilities including buildings and other existing infrastructure belonging to the CIPL and the IPC shall take over all the functions and tasks hitherto being performed by the CIPL. The existing officers and staff of the CIPL, irrespective of their grade shall be transferred en masse to the strength of the IPC on terms of foreign service without any deputation allowance and will be given the option to be absorbed in the IPC permanently or to revert to the Retraining and Re-deployment Division of the Department of Personnel and Training, as the case may be. The Indian pharmacopoeia Commission will henceforth function as an autonomous body, fully financed by the Central Government with specific budgetary allocations under the administrative control of the Ministry of Health &

Family Welfare. It has also been decided that during the inter-regnum the CIPL shall function together with its staff and infrastructure as a constituent Laboratory of the IPC until both the institutions have amalgamated/merged themselves formally whereafter the CIPL shall cease to subsist for all purposes.

ORDER

Ordered that a copy of the resolution be communicated to :

1. All Ministries/Departments of the Government of India.
2. All Attached/Subordinate Offices under the Ministry of Health and Family Welfare.
3. All Autonomous/Statutory organizations under the Ministry of Health and Family Welfare.
4. PSs to IFM/MOS (H&FW)/Secretary (H&FW)/DGHS/SS(DG)/JS(DP)
5. All Joint Secretaries and other officers under the Ministry of Health & Family Welfare/DCGL.
6. All Sections/Desks/Cells in the Ministry of Health & Family Welfare.
7. Dto. GIS (Admn-I/Drugs Section/New Drugs Control Section).

Ordered also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

DEBASISH PANDA  
Joint Secy.

MINISTRY OF CULTURE

New Delhi, the 5th May 2008

RESOLUTION

No. 32-1/2006-CDN—The tenure of the Committee constituted to consider drafting a National Policy on Culture vide Resolution No. 32-1/2006-CDN Dated 27th December, 2007 is hereby renewed and extended for a further period of two months ending June 30, 2008.

All other terms and conditions remain unchanged.

R. C. MISHRA  
Joint Secy.